

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने पांच माह के लिए निवासियों के टैक्स स्थगित किए और सभी जुर्मानों से छूट दी

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (21 मार्च, 2020) – आज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) की प्रतिक्रिया में, 18 मार्च से 19 अगस्त, 2020 तक, पांच माह की अवधि के लिए टैक्स भुगतानों पर ब्याज और लेट फीस की छूट दी है। काउंसिल की अगली मीटिंग में इस निर्णय को प्रमाणित किया जाएगा।

सिटी के एमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान (Emergency Management Plan) के सेक्शन 3.8 के अंतर्गत, COVID-19 महामारी जैसी एमरजेंसी के दौरान, सिटी को ऐसी कार्रवाईयां करने का अधिकार दिया गया है, “जो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की सीमाओं के अंदर, ज़िंदगी, प्रॉपर्टी, वातावरण और अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं।”

यह निर्णय और ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) सेवा में बदलावों के संबंध में घोषणा, हमारे समुदाय की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए COVID-19 के दौरान सिटी की निरंतर प्राथमिकता के अनुकूल हैं।

निवासियों और कारोबारियों को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए:

- टैक्सों की 18 मार्च को दी जाने वाली दूसरी किश्त के लिए, अथवा 22 अप्रैल को दी जाने वाली तीसरी किश्त के लिए, न तो ब्याज और न ही लेट फीस ली जाएगी।
- जिन लोगों ने टैक्स की अपनी अप्रैल की किश्त के लिए सिटी को बाद की तारीख (पोस्ट डेटिड) के चेक भेजे हैं और भुगतान रद्द करवाना चाहते हैं, वे 15 अप्रैल तक 311 पर फोन करके ऐसा कर सकते हैं।
- उन लोगों की 1, 15 और 22 अप्रैल की किश्तें ले ली जाएंगी, जिन्होंने अपने बैंक के माध्यम से टैक्स भुगतान की पूर्व-अनुमति दी हुई है। जिन लोगों ने मई के लिए टैक्स भुगतानों की पूर्व-अनुमति दी हुई है, वे 311 पर फोन करके अपनी किश्त रद्द करवा सकते हैं। बाद में पूर्व-अनुमति को दुबारा शुरू करने के लिए, भुगतान करने वाले को सिटी के पास दुबारा आवेदन करना होगा।
- सिटी द्वारा लगातार टैक्स के भुगतान स्वीकार किए जाएंगे और इन पर प्रतिक्रिया की जाएगी। भुगतान विकल्पों की पूरी सूची [यहां \(here\)](#) देखें।

किसी भी पूछताछ के लिए, [इस फार्म का प्रयोग करें \(use this form\)](#)।

**हवाले**

“ब्रैम्पटन काउंसिल, इस महामारी के दौरान हमारे निवासियों को होने वाले वास्तविक आर्थिक कष्ट और संघर्ष को समझती है। इसलिए ही हम प्रत्येक निवासी को पांच माह के लिए बिना किसी जुर्माने के प्रॉपर्टी टैक्स स्थगित करने की छूट दे रहे हैं। इसका उपयोग करना या न करना आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। हम आपके लिए काम करते हैं। हम अच्छी तरह समझते हैं कि आर्थिक संकट के इस समय के दौरान समुदाय यही चाहता था।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी के लिए इसके समुदाय की जरूरतें सबसे पहले हैं, विशेषकर इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान। हम ब्रैम्पटन के निवासियों और कारोबारियों को बेहतर सेवा के लिए तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। हालांकि सिटी की फैसिलिटीज बंद हैं, लेकिन कई सेवाएं और सहयोग, वैकल्पिक तरीकों से उपलब्ध रहेंगे।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)